

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016-अग्रहायण 18, शके 1938

**भाग 3 ( 1 )**

**विज्ञापन**

**अन्य सूचनाएं**

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार राकेश पन्नु एवं श्रीमती भावना पति राकेश पन्नु, निवासी -126, धनवंतरी नगर, इन्दौर के पुत्र का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में सत्यजीत पन्नु अंकित है एवं त्रुटिवश चमेली देवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में उसका नाम नौराज पन्नु हो गया है. हमारे पक्षकार के उक्त पुत्र सत्यजीत पन्नु के नाम से ही संबोधित किया जाता रहा है एवं भविष्य में भी इसी नाम से संबोधित किया जावेगा.

प्रेषक,

**PRAKHAR KARPE,**

BLS, LLB (Advocate)

3, Guru Govind Singh Market,  
SiKh Mohalla, Indore (M.P.).

(521-B.)

**नाम परिवर्तन**

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि मैं, बालकृष्ण योगी पुत्र श्री रमेश चन्द्र योगी व्यवसाय प्रॉपर्टी डीलर, निवासी बापू दण्डी की गोठ, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचनार्थ प्रकाशित करता हूँ कि आज दिनांक से मुझे बालकृष्ण योगी पुत्र रमेश चन्द्र योगी की बजाय मेरे नये नाम उदयराज गोस्वामी पुत्र रमेश चन्द्र योगी के नाम से जाना और समझा जावेगा. मैंने अपना नया नाम परिवर्तित कर उदयराज गोस्वामी पुत्र श्री रमेश चन्द्र योगी आयु 36 वर्ष व्यवसाय प्रॉपर्टी डीलर निवासी बापू दण्डी की गोठ, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर रख लिया है. जनसामान्य सूचनार्थ.

भवदीय,

**H. K. SHUKLA,**

(Advocate)

M.P. High Court, Gwalior,  
Office Opposite Denik Bhaskar Press,  
Jyendra Ganj, Gwalior (M.P.).

(523-B.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अंकसूचियों में जयकुमार अंकित है, जबकि मेरे सेवा अभिलेख, पैनकार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड में जयकुमार राजौरिया अंकित है. दोनों नाम मेरे ही हैं.

अतः भविष्य में मुझे जयकुमार राजौरिया के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( जयकुमार )

(522-बी.)

नया नाम :

( जयकुमार राजौरिया )

बी-414, एन. एफ. एल. टाउनशिप,  
विजयपुर-गुना, (मध्यप्रदेश).

**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम सारिका गयानी पिता श्री शिशुपाल गयानी, निवासी प्रभु अपार्टमेन्ट खातीवाला टैंक, इन्दौर (म.प्र.) सभी दस्तावेजों में दर्ज है मुझे अब शादी के उपरांत श्रीमती रिया तनवानी पति श्री सुनील तनवानी के नाम से जाना जावे और समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में नाम परिवर्तन किया जावे.

पुराना नाम :

( सारिका गयानी )

पिता-श्री शिशुपाल गयानी,  
निवासी-प्रभु अपार्टमेन्ट खातीवाला टैंक,  
इन्दौर (म.प्र.).

(524-बी.)

नया नाम :

( रिया तनवानी )

पति-श्री सुनील तनवानी,  
निवासी-87/ए, श्रीकांत पैलेस,  
इन्दौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम शैलेन्द्र लोधवाल (SHAIENDRA LODHWAL) है, मेरी कुछ अंकसूचियों में मेरा नाम शैलेष उर्फ शैलेष कुमार लिखा हुआ है एवं अन्य सभी दस्तावेजों व अंकसूचियों में शैलेन्द्र लोधवाल लिखा हुआ है. अतः अब से सभी जगह मुझे शैलेन्द्र लोधवाल नाम से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( शैलेष उर्फ शैलेष कुमार )

(526-बी.)

नया नाम :

( शैलेन्द्र लोधवाल )

( SHAIENDRA LODHWAL )

158, सरदार पटेल मार्ग कन्नौद,  
जिला-देवास (म.प्र.).

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म में श्रीनाथजी इण्डस्ट्रीज के संविधान में दिनांक 30-09-2016 से निम्नांकित संशोधन हुए हैं.

फर्म से अलग होने वाले भागीदार :-

1. श्री सुनिल मुलतकर पिता शिवदास मुलतकर
2. श्री पियुष मुलतकर पिता अनिल मुलतकर.

निम्नलिखित भागीदार यथावत भागीदारी फर्म में हैं.

फर्म में सम्मिलित भागीदार :-

1. श्री शैलेषकुमार पिता पन्नालाल माहेश्वरी
2. श्रीमति उषा पति गोपालदास माहेश्वरी.

(525-बी.)

वास्ते:- मेसर्स श्रीनाथजी इण्डस्ट्रीज,  
शैलेष कुमार,  
( भागीदार ).

**PUBLIC NOTICE**

This is to inform all that Partnership Firm in the name of " M/s. Nilshikhaa Infraa" incorporated on 27-09-2013 has now been converted into a Public Company in the name of " Nilshikhaa Infraa India Limited" incorporated as per the Provisions of Companies Act, 2013 having CIN-U74999MP2016PLC021388 on 30-08-2016.

Further it is informed that on 29-08-2016 the firm (Nilshikhaa Infraa) stands dissolved and the business of the firm from 30-08-2016 and onwards will be carried on by Nilshikhaa Infraa India Limited. Also all the liabilities and assets of the firm (Nilshikhaa Infraa) are transferred in Nilshikhaa Infraa India Limited and we ensure our Clients/Suppliers/Debtors of the firm (Nilshikhaa Infraa) that with this conversion their interest will not be affected.

For Nilshikhaa Infraa,  
**GURU PRASANNA SAHOO,**  
(Partner)  
Managing director,  
Nilshikhaa Infraa India Limited.

(527-B.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म मैसर्स मनोहरलाल शांतिलालजी भंडारी 60, लक्ष्मीबाई मार्ग, झाबुआ (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 1848 प्रभावशील दिनांक 15-01-1987 है में दिनांक 31-03-2009 से निम्न भागीदार फर्म से पृथक् हो गये हैं- (1) ज्योति जैन, (2) संगीता जैन, (3) तनु जैन तथा दिनांक 01-04-2009 से निम्न भागीदार को फर्म में भागीदार में सहयोग हेतु शामिल किया है- (1) सरदारमल जैन, (2) सोभागचंद जैन, (3) चिन्तन लुणावत, (4) मनन लुणावत, (5) राजेश जैन, (6) अक्षय जैन अतः दिनांक 01-04-2009 में फर्म की लेनदारी-देनदारी की जवाबदारी निम्न भागीदारों की रहेगी. 1. मनोहरलाल भंडारी, 2. तेजमल जैन, 3. पन्नालाल जैन, 4. प्रदीप भंडारी, 5. जय भंडारी, 6. अंकुर भंडारी, 7. चन्दा भंडारी, 8. मधु भंडारी, 9. किरण भंडारी, 10. मनोहरलाल भंडारी, एच. यू. एफ., 11. प्रदीप भंडारी एच. यू. एफ., 12. मंजु जैन, 13. माया जैन, 14. सरदारमल जैन, 15. सोभागचंद जैन, 16. चिन्तन लुणावत, 17. मनन लुणावत, 18. राजेश जैन, 19. अक्षय जैन.

मैसर्स मनोहरलाल शांतिलाल भण्डारी,

मनोहरलाल भण्डारी,  
(भागीदार).

(528-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म मैसर्स मनोहरलाल शांतिलाल भंडारी 60, लक्ष्मीबाई मार्ग, झाबुआ (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 1848 प्रभावशील दिनांक 15-01-1987 है में दिनांक 31-03-2011 से निम्न भागीदार फर्म से पृथक् हो गये हैं- (1) राजेश जैन, (2) अक्षय जैन तथा दिनांक 01-04-2011 से निम्न भागीदार को फर्म में भागीदार में सहयोग हेतु शामिल किया है- (1) रिद्धी भंडारी, (2) सिद्धी भंडारी आज दिनांक 01-04-2011 से फर्म की लेनदारी-देनदारी की जवाबदारी निम्न भागीदारों की रहेगी. 1. मनोहरलाल भंडारी, 2. तेजमल जैन, 3. पन्नालाल जैन, 4. प्रदीप भंडारी, 5. जय भंडारी, 6. अंकुर भंडारी, 7. चन्दा भंडारी, 8. मधु भंडारी, 9. किरण भंडारी, 10. रिद्धी भंडारी, 11. सिद्धी भंडारी, 12. मंजु जैन, 13. माया जैन, 14. सरदारमल जैन, 15. सोभागचंद जैन, 16. चिन्तन लुणावत, 17. मनन लुणावत, 18. मनोहरलाल भंडारी एच. यू. एफ., 19. प्रदीप भंडारी एच. यू. एफ.

मैसर्स मनोहरलाल शांतिलाल भण्डारी,

मनोहरलाल भण्डारी,  
(भागीदार).

(529-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म मैसर्स मनोहरलाल शांतिलालजी भंडारी 60, लक्ष्मीबाई मार्ग, झाबुआ (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 1848 प्रभावशील दिनांक 15-01-1987 है में दिनांक 31-03-2014 से निम्न भागीदार फर्म से पृथक् हो गये हैं- (1) मनोहरलाल भंडारी एच. यू. एफ., (2) प्रदीप भंडारी एच. यू. एफ. अतः दिनांक 01-04-2014 से वर्तमान एवं आगामी संशोधन तक लेनदारी-देनदारी की जवाबदारी निम्न भागीदारों की रहेगी. 1. मनोहरलाल भंडारी, 2. तेजमल जैन, 3. पन्नालाल जैन, 4. प्रदीप भंडारी, 5. जय भंडारी, 6. अंकुर भंडारी, 7. चन्दा भंडारी, 8. मधु भंडारी, 9. किरण भंडारी, 10. रिद्धी भंडारी, 11. सिद्धी भंडारी, 12. मंजु जैन, 13. माया जैन, 14. सरदारमल जैन, 15. सोभागचंद जैन, 16. चिन्तन लुणावत, 17. मनन लुणावत.

मैसर्स मनोहरलाल शांतिलाल भण्डारी,

मनोहरलाल भण्डारी,  
(भागीदार).

(530-बी.)

## विविध

### निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर, 2016

#### निविदा सूचना

क्र. जी.बी.चार/पेपर/(के-11) 2016-17/2978.—ऐसे प्रिण्टर्स एवं डायरी निर्माता जो मुद्रण और डायरी के विनिर्माण उत्पादन का पर्याप्त अनुभव रखते हों, 20 करोड़ रुपये का टर्न ओव्हर हो एवं एक वर्ष में 1.4 करोड़ रुपये की डायरी निर्माण का एकल आदेश प्राप्त किया हो, से मध्यप्रदेश शासन की डायरी-2017 प्रदाय किये जाने हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 तक अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं.

2. ई-टेंडरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्ड कॉपी **Key-Dates** अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 को अपरान्ह 13.00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना होगा. ई-टेंडरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्डकॉपी के लिफाफे दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 को अपरान्ह 14.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

(849)

Bhopal, Dated 21<sup>st</sup> November, 2016

#### TENDER NOTICE

No.GB-IV/Diary/(K-11)2016-17/2978.—ONLINE Bidding are invited through IT Department website <https://www.mpeproc.gov.in> for Printing and Supply Of Madhya Pradesh Government Diary-2017 from the printers and Diary Manufacturers who have sufficient experience of printing and manufacturing of Diaries with production facilities and have annual turnover of Rs. 20 Crores and have essentially obtained and executed at least on single order of manufacturing cost of one crore forty lakhs of Diaries's printing in a year, shall only be eligible for submitting Online Tender on or before 12-12-2016 up to 12:00 PM.

2. In all respects Hard copy of technical tender document must be received at the Office of undersigned latest by 13.00 PM on 12-12-2016 as per Key-Dates. Online opening of the Technical Tender and Hard copy of the same will be opened on 12-12-2016 at 14:00 PM in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

(849-A)

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर, 2016

#### निविदा सूचना

क्र. जी.बी.चार/पेपर/(के-11) 2016-17/2979.—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में पंजीकृत मुद्रकों, जिल्दसाजों से ग्रुप ए, बी, सी एवं डी की आवश्यक अर्हता की पूर्ति करने वाले निविदाकारों से सचित्र कैलेण्डर एवं अन्य सामग्री को पेपर सहित मुद्रण कर प्रदाय करने हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 अपरान्ह 12 बजे तक आमंत्रित की जाती है.

2. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को अवलोकनार्थ रख गया है.

3. ई-टेंडरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्ड कॉपी की डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 अपरान्ह 13.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा. ई-टेंडरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्ड कॉपी के लिफाफे एवं निविदाकार द्वारा प्रस्तुत नमूनों को दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 अपरान्ह 14.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा.

(849-B)

भोपाल, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

**अल्पावधि निविदा सूचना**

क्र. जी.बी.चार/(पी-1) 2016-17/3189.— ऑनलाईन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेण्डर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रिंटिंग एवं अन्य सामग्री का क्रय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये आमंत्रित की जाती है।

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट [www.govt.pressmp.nic.in](http://www.govt.pressmp.nic.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्ड कॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा. ऑनलाईन निविदा एवं हार्ड कॉपी की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थिति निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(849-C)

Bhopal, Dated 02<sup>nd</sup> December, 2016**SHORT TENDER NOTICE****( Printing Articles )**

No.GB-IV-Printing(1)2016-17/3189.—*ONLINE Bidding go through IT Department Portal <https://www.mpeproc.gov.in> and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 P.M. on 12-12-2016 as per Key-Dates from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of various types of printing materials for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa.*

2. Tender Document and agreement details of tender are also available at website [www.govt.pressmp.nic.in](http://www.govt.pressmp.nic.in).

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealed) must be received at the office of the undersigned as per key dates Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE as per key dates in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on <https://www.mpeproc.gov.in>.

(849-D)

**VILAS MANTHANWAR,**

Deputy Controller,

For Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

**न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक न्यास, पथरिया, जिला दमोह**

प्रारूप क्रमांक-4

[ देखें नियम-5 (1) ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा ]

यह कि श्री भगत सिंह बल्द शंकर सिंह साकिन बटियागढ़, अध्यक्ष मंदिर श्री जागेश्वरनाथ जी, शंकर जी, महादेव जी ग्राम बटियागढ़, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन-पत्र किया है एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 2016 के माह नवम्बर के 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	..	1. मंदिर श्री जागेश्वरनाथ जी, शंकर जी, महादेव जी ग्राम बटियागढ़, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह.
सम्पत्ति का विवरण	..	1. मौजा बटियागढ़, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह में कुल रकवा 3.120 हे. 2. जिसमें मंदिर 2000 वर्गफुट में है. 3. चल-सम्पत्ति करीबन 15000 रुपया.

एस. के. अहिरवार,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(832)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, लोक न्यास एवं उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली, जिला सिंगरौली

प्र.क्र. 24/बी-121/2016.

सिंगरौली, दिनांक 10 नवम्बर, 2016

#### प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक उपखण्ड सिंगरौली, जिला-सिंगरौली के समक्ष.

अतः कि आवेदक रामजानकी मानव कल्याण सेवा संस्थान ग्राम काम, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदक ने अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

नाम	:	रामजनकी मानव कल्याण सेवा संस्थान.
पता	:	ग्राम काम, जिला-सिंगरौली (म.प्र.).
सम्पत्ति का विवरण	:	आराजी नं. 1724/2 रकवा 0.240 हे.

विकास कुमार सिंह,  
पंजीयक एवं उपखण्ड अधिकारी.

(833)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर

बण्डा, दिनांक ...../10/2016.

प्र. क्र.01बी/113(1)वर्ष 2016-17.

मौजा-खटौराखुर्द, तह. शाहगढ़

जसराजसिंह पिता स्व. रघुनाथसिंह बुन्देला

निवासी ग्राम-खटौराखुर्द, तहसील शाहगढ़, जिला सागर

.....आवेदक

#### विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

क्र.क/रीडर-1/2016.—सर्व-साधारण को इस्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक कुं. जसराजसिंह पिता स्व. रघुनाथसिंह बुन्देला,

निवासी ग्राम-खटौराकला, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश द्वारा मुहत्तमकार नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। मंदिर श्री देव हनुमान जी मुहत्तमकार रघुनाथसिंह पिता पर्वतसिंह ठाकुर प्रबंधक कलेक्टर सागर के नाम से मौजा-खटौराखुर्द प. ह. नं. 27, तहसील शाहगढ़ में स्थित भूमि ख नं.-123, 369, 422, 467, 482, 496 रकवा-0.50, 0.18, 0.22, 0.90, 0.43, 0.26 कुल रकवा-2.69 हे. जो स्व. रघुनाथसिंह बुन्देला मुहत्तमकार प्रबंधक कलेक्टर सागर के दर्ज है।

अतः आवेदक कु. जसराजसिंह पिता स्व. रघुनाथसिंह बुन्देला, निवासी ग्राम-खटौराकला, तहसील शाहगढ़ को मुहत्तमकार नियुक्त किये जाने के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई अपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा।

इशतहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

जारी दिनांक 10 नवम्बर, 2016.

पेशी दिनांक 09 दिसम्बर, 2016.

(834)

बृज बिहारी पाण्डेय,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल**

प्र. क्र./बी/113/2015-16.

#### प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि " नर्मदाचल अनुसूचित जनजाति सेवा न्यास " प्रज्ञादीप परिसर, प्लॉट नम्बर 1806 हर्षवर्द्धन नगर भोपाल ट्रस्टी श्री बुधपाल सिंह ठाकुर पुत्र श्री रामचरण सिंह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 25 दिसम्बर, 2016 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखता हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकरण के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हों वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

#### अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : " नर्मदाचल अनुसूचित जनजाति सेवा न्यास "
2. अचल सम्पत्ति : निल
3. चल सम्पत्ति : 1100.00

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(835)

कमल सोलंकी,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अम्बाह, जिला मुरैना**

#### प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-5 (1) के तहत]

आवेदक सेवा ट्रस्ट श्री ठाकुर जी महाराज न्यास मंदिर श्री बांके बिहारी ग्राम सिकरोडी, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना द्वारा अध्यक्ष (व्यवस्थापक) केप्टन श्री गंगा सिंह तोमर पुत्र श्री देवी सिंह तोमर, निवासी ग्राम सिकरोडी, तहसील अम्बाह के मध्यप्रदेश लोक न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन पेश किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को विचार में लिया जायेगा। कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हक रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति व सुझाव रखता हो उसे इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है।

अतः मैं, एम. एल. मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अम्बाह, जिला मुरैना अपने न्यायालय में दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास धारी या इससे हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उक्त दिनांक को या तो स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	: सेवा ट्रस्ट श्री ठाकुर जी महाराज न्यास मंदिर श्री बांके बिहारी ग्राम सिकरोडी, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना
लोक न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण—	
चल सम्पत्ति	: दैनिक पूजा पाठ का सामान तथा उपयोग में आने वाली सामग्री।
अचल सम्पत्ति	: ग्राम सिकरोडी की भूमि खसरा क्रमांक-260 कुल रकवा 0.35 हैक्टर पर बना मंदिर तथा उसमें स्थापित श्री बांके बिहारी की प्रतिमायें आदि।

आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

एम. एल. मालवीय,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

(836)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक अखिल भारतीय जैन ओसवाल साजनान फेडरेशन तर्फे प्रकाशचंद पिता श्री अम्बालाल जी भटवेरा जैन (अध्यक्ष), पता-जी-1, मंगलम हाईट्स 19/16-ई, विश्राम कॉलोनी वाय. एन. रोड, इंदौर द्वारा अखिल भारतीय जैन ओसवाल साजनान फेडरेशन कार्यालय पता-जी-1, मंगलम हाईट्स 19/16-ई, विश्राम कॉलोनी यशवंत निवास रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	: अखिल भारतीय जैन ओसवाल साजनान फेडरेशन.
पता	: जी-1, मंगलम हाईट्स 19/16-ई, विश्राम कॉलोनी यशवंत निवासी रोड, इंदौर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	: निरंक.
चल सम्पत्ति	: रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र) है.

आज दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(837)



## ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक PURUSHILA CHARITABLE TRUST, पता-अग्रवाल हाउस, फस्ट फ्लोअर, 5, यशवंत कॉलोनी, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल पिता श्री रामकुमार अग्रवाल अन्य-2, पता-1, चमेली पार्क नेयर गोयल नगर, रिंग रोड, इन्दौर के द्वारा PURUSHILA CHARITABLE TRUST, कार्यालय पता-अग्रवाल हाउस, फस्ट फ्लोअर, 5, यशवंत कॉलोनी, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : PURUSHILA CHARITABLE TRUST.  
 ट्रस्ट कार्यालय का पता : अग्रवाल हाउस, फस्ट फ्लोअर, 5, यशवंत कॉलोनी, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश.  
 अचल सम्पत्ति : निरंक.  
 चल सम्पत्ति : रु. 1,11,111 /- अक्षरी रुपये (एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) है।  
 आज दिनांक 07 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(837-A)

## ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक सेवा-एक-लक्ष्य -परमार्थिक न्यास, पता-311, पल्हर नगर, एरोडूम रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री रवि लाड़ पिता श्री रजनीकांत लाड़ अन्य-10, पता-27/2, रावजी बाजार गली नम्बर 2, इन्दौर के द्वारा सेवा-एक-लक्ष्य -परमार्थिक न्यास, कार्यालय पता-311, पल्हर नगर, एरोडूम रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : सेवा-एक-लक्ष्य -परमार्थिक न्यास.  
 ट्रस्ट का पता : 311, पल्हर नगर, एरोडूम रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश.  
 अचल सम्पत्ति : निरंक.  
 चल सम्पत्ति : रु. 13,000/- (अक्षरी रुपये तेरह हजार दो सौ मात्र) है।  
 आज दिनांक 07 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(837-B)

अजीत कुमार श्रीवास्तव,  
 रजिस्ट्रार.

### न्यायालय पंजीयन, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन

प्र.क्र. 26/बी-113/2015-16/4392.

उज्जैन, दिनांक 22 नवम्बर, 2016

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,  
लोक न्यास, उज्जैन  
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक ट्रस्टी सेटलर/मेनेजिंग ट्रस्टी, अब्दुल्लाह रोनाक पिता युसूफ द्वारा अमेजिंग फाउन्डेशन ट्रस्ट उज्जैन तह. व जिला उज्जैन, पता-20, कमरी मार्ग, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

#### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता )

न्यास का नाम	:	“श्री अमेजिंग फाउन्डेशन ट्रस्ट उज्जैन”.
कार्यालय	:	पता-20, कमरी मार्ग, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	आवेदन पत्रानुसार निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	आवेदन पत्रानुसार निरंक है.

(838)

प्र.क्र. 0001/बी-113/2016-17.

उज्जैन, दिनांक 18 नवम्बर, 2016

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,  
लोक न्यास, उज्जैन  
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक ट्रस्टी अध्यक्ष श्री भंवरसिंह पिता स्व. नानूरामजी आंजना आदि. द्वारा “श्री आंजना धर्मशाला न्यास नवगृह मंदिर, उज्जैन” तहसील व जिला उज्जैन, पता-3/2, नानाखेडा बस स्टेण्ड के पास माँ काशी परिसर उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30)

की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता )

न्यास का नाम	:	“ श्री आंजना धर्मशाला न्यास नवगृह मंदिर, उज्जैन”.
कार्यालय	:	पता-3/2, नानाखेडा बस स्टेण्ड के पास माँ काशी परिसर उज्जैन
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम डेंडिया तह. उज्जैन की भूमि सर्वे क्र. 3/2/1/1 रकबा 0.188 हे.
चल सम्पत्ति	:	11,000/- रु. नर्मदा ज्ञाबुआ ग्रामीण बैंक में जमा की छायाप्रति पेश की है.

शित्तिज शर्मा,

पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

(850)

### न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) झांसी रोड, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 18 नवम्बर, 2016

प्र. क्र.02/2015-16/बी-113 (1).

### प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

श्री अंजीत पी. मैथ्यू पुत्र श्री मैथ्यू थॉमस, निवासी-एच-2, न्यू गोविन्दपुरी, शीतला पानी टंकी के पास, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक..... को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक..... को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

## अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता . . . "जीवन ज्योति ट्रस्ट" एच-2, न्यू गोविन्दपुरी,  
शीतला पानी टंकी के पास, थाटीपुर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश.
- लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन:
2. चल सम्पत्ति . . . 7,000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति . . . निरंक.

महीप तेजस्वी,  
पंजीयक.

(851)

## न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), दमोह

प्र. क्र.01/Q-113(1)/2016-17.

दमोह, दिनांक 11 नवम्बर, 2016

## प्रारूप-4

[देखें नियम-6 (1)]

## सूचना-पत्र

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास जिला दमोह, क्रमांक क/सं. न्यास/2015.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियमानुसार (1) के द्वारा]

यह कि श्री हनुमान मंदिर बेलाताल टापू मंदिर सार्वजनिक न्यास दमोह, तहसील व जिला दमोह द्वारा श्रीमति विद्या कटारे पति स्व. जी. पी. कटारे, उम्र 67 वर्ष अध्यक्ष ट्रस्टी कमेटी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एवं आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

## अनुसूची

- लोक न्यास का नाम और पता : श्री हनुमान मंदिर बेलाताल टापू मंदिर सार्वजनिक न्यास, दमोह.  
श्री हनुमान मंदिर बेलाताल टापू मंदिर सार्वजनिक न्यास में  
60000 रु. एवं चांदी के बर्तन मुकुट आदि, जिला दमोह.

बृजेन्द्र रावत,  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

(852)

## अन्य सूचनाएं

## कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, सेंधवा ( सामान्य )

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि सेंधवा वनमण्डल में निम्न लिखित वनक्षेत्र दिनांक 1 जुलाई, 2016 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे। जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी, इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

## चराई वर्ष 2016-17 चराई हेतु प्रतिबंधित वृक्षारोपण की सूची ( सेंधवा वनमण्डल, सामान्य )

परिक्षेत्र	वर्ष	चराई से प्रतिबंधित वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम एवं कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4
वर्ष 2009-10			
सेंधवा	2009-10	बकतरिया, 227	50

1	2	3	4
सेंधवा	2009-10	वाक्या, 245	30
--,,--	--,,--	नादीया, 234	30
--,,--	--,,--	उमरियापानी, 213	50
--,,--	--,,--	झिरपन, 236	30
--,,--	--,,--	गवाडी, 221	30
--,,--	--,,--	भूरापानी, 220	30
पानसेमल	--,,--	कालंबा, 59	30
--,,--	--,,--	शिवनीपडावा, 67	30
--,,--	--,,--	मलगांव 32 डल	30
--,,--	--,,--	वायगौर, 12 बी. डब्ल्यू	30
--,,--	--,,--	भडभडा, 50 एम. एन.	50
--,,--	--,,--	चालीपीठा, 11 डी. एच.	30
--,,--	--,,--	मोहल्यापानी, 55 जीएच	30
धनोरा	--,,--	राजनगांव, 269	30
--,,--	--,,--	कडाईपानी, 264	30
--,,--	--,,--	चाचरिया, 273	30
--,,--	--,,--	गुडा, 253	30
--,,--	--,,--	जुलवान्या, 305	30
--,,--	--,,--	रामकुल्ला, 248	30
--,,--	--,,--	बडीयापानी, 183	50
--,,--	--,,--	जामठी, 140	50
वरला	--,,--	कोलकी, 204	50
--,,--	--,,--	डोकल्यापानी, 126	50
धवली	--,,--	अजगरिया, 117	40
--,,--	--,,--	टाक्यापानी, 109	30
--,,--	--,,--	खपाड़ा, 107	40
--,,--	--,,--	मोहनपुरा, 23	30
योग . .			1000
वर्ष 2009-10			
सेंधवा	2009-10	भंवरगढ, 224	15
--,,--	--,,--	खडक्या, 383	15
पानसेमल	--,,--	केवडीदेवडी, 46 एमएन	30
--,,--	--,,--	कामठीनाला, 10 डीएच	30

1	2	3	4
पानसेमल	2009-10	मोयदा, 69	50
--,,--	--,,--	अलखड, 76	30
--,,--	--,,--	करणपुरा, 13 बी. डब्ल्यू.	50
--,,--	--,,--	बंधारा, 60	30
--,,--	--,,--	गोंदीकांचली, 79	30
--,,--	--,,--	ललवान्या, 46 पी. एल.	40
--,,--	--,,--	आमझिरी, 33 एम. जी.	30
धनोरा	--,,--	खापरखेडा, 337	30
--,,--	--,,--	इनायकी, 250	30
--,,--	--,,--	सिरवेल, 301	30
<b>योग . .</b>			<b>440</b>

**वर्ष 2010-11**

सेंधवा	2010-11	मोहरतमाल, 570	50
पानसेमल	--,,--	सांपखडकी, 750	130
--,,--	--,,--	मनकुई, 772	150
--,,--	--,,--	कामठीनाला, 717	150
--,,--	--,,--	चालीपीठा, 725	130
--,,--	--,,--	बायगौर, 733	100
--,,--	--,,--	करणपुरा, 742	130
--,,--	--,,--	शिवनीपडावा, 784	120
--,,--	--,,--	मोयदा, 790	90
--,,--	--,,--	केवडी देवडी, 759	50
धनोरा	--,,--	किरचाली, 607	40
--,,--	--,,--	मुवास्या, 644	140
वरला	--,,--	डोगल्यापानी, 513	190
--,,--	--,,--	बाखर्ली, 403	150
--,,--	--,,--	गुराड़पानी, 506	150
--,,--	--,,--	महानीम, 487	145
धवली	--,,--	458	0
--,,--	--,,--	खपाडा, 464	65

1	2	3	4
धवली	2010-11	मोहनपुरा, 422	55
--,,--	--,,--	खपाडा, 433	70
--,,--	--,,--	धावडा, 442	50
सेंधवा	--,,--	उमरियापानी, 214	25
वरला	--,,--	जामठी, 141	25
सेंधवा	--,,--	खडक्या, 382	25
वरला	--,,--	सोलवन, 206	25
योग . .			2255

## समिति द्वारा वनक्षेत्रों में रोपण

वरला	--,,--	बडियापानी, 183	5
--,,--	--,,--	कुंडिया, 191	5
--,,--	--,,--	हिगवा, 05	5
--,,--	--,,--	मालवन, 208	5
--,,--	--,,--	बाखली, 02	5
धनोरा	--,,--	कडाईपानी, 264	8
--,,--	--,,--	कामोद, 291	8
--,,--	--,,--	जुलवान्या, 303	8
--,,--	--,,--	रामगढ़ी, 282	8
--,,--	--,,--	खपाडा, 104	8
--,,--	--,,--	अजगरिया, 117	8
--,,--	--,,--	जूनापानी, 68	8
पानसेमल	--,,--	मलगांव	5
--,,--	--,,--	करणपुरा	8
--,,--	--,,--	शिवनीपडावा	8
--,,--	--,,--	चालीपीठा	5
--,,--	--,,--	सांपखडकी	8
--,,--	--,,--	आमझिरी	8
--,,--	--,,--	भडभडा	8
--,,--	--,,--	मनकुई	8
--,,--	--,,--	मोयदा	8

1	2	3	4
सेंधवा	2010-11	गवाड़ी, 222	8
--,,--	--,,--	मोहाला, 235	8
--,,--	--,,--	झिरपन, 241	8
योग . .			171
<b>वर्ष 2011-12</b>			
सेंधवा	2011-12	मोहरतमाल, 570	5
--,,--	--,,--	उमरियापानी, 573	30
--,,--	--,,--	खडक्या, 713	50
--,,--	--,,--	मोहरतमाल, 574	10
--,,--	--,,--	वाक्या, 604	10
--,,--	--,,--	बखरिया, 579	10
--,,--	--,,--	बघाड, 696	10
वरला	--,,--	कोलकी, 562	10
--,,--	--,,--	किरमला, 524	10
--,,--	--,,--	दुगानी, 484	10
--,,--	--,,--	सोलवन, 548	10
धवली	--,,--	जूनापानी, 425	10
--,,--	--,,--	धावडा, 444	10
धनोरा	--,,--	खापरखेडा, 676	10
--,,--	--,,--	सिरवेल, 677	10
--,,--	--,,--	केलपानी, 679	10
--,,--	--,,--	चाचरिया, 631	10
पानसेमल	--,,--	मनकुई, 769	10
--,,--	--,,--	मोयदा, 785	10
--,,--	--,,--	तालाब, 798	10
--,,--	--,,--	मलगांव, 741	10
योग . .			265
<b>वर्ष 2012-13</b>			
सेंधवा	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण, साली कला 716	50
--,,--	--,,--	बांस रोपण, भंवरगढ़, 569	20
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण, सालीकला 716	25



1	2	3	4
सैंधवा	2012-13	बिगड़े वनों का सुधार मोहरतमाल 571	35
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास, भंवरगढ़ 585	60
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास, जामन्या 700	30
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास, बघाड़ 701	20
पानसेमल	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण, तालाब 806	50
--,,--	--,,--	बांस वृक्षारोपण, मलगांव 741	20
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण, तालाब 806	25
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण, आमझिरी 749	50
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार चालीपीठा 718	110
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार चालीपीठा 726	160
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार बायगौर 734	100
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार करणपुरा 742	150
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार सॉपखडकी 752	89.7
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार केवडी देवडी 759	60
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार मनकुई 772	100
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार शिवनी पडावा 786	80
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार गोदीकाचली 799	100
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास पन्नाली 751	80
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मनकुई 770	100
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खडीखम 792	116
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास तलाब 805	42
धनोरा	--,,--	बांस वृक्षारोपण गुडा 617	20
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार रामगढी 634	59.29
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार रामगढी 645	125.4
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कढाईपानी 619	106.006
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कामोद 651	10
वरला	--,,--	बांस वृक्षारोपण सोलवन 565	20
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण महेन्दयापानी 187	50
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार महानीम 489	83.65

1	2	3	4
वरला	2012-13	बिगड़े वनों का सुधार बडियापानी 542	68.35
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार अम्बावतार 500	20
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार छत्रीपडावा 514	72.9
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास किरमला 525	40
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कुडीया 549	25
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहनपडावा 561	44.8
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खुटवाडी 404	30
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास महानीम 485	50
धवली	--,,--	बॉस वृक्षारोपण अजगरिया 472	20
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार अडनदी 430	55.1
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार धावडा 441	76.95
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार धावडा 443	73.37
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार खपाडा 460	7
<b>योग . .</b>			<b>2627.52</b>

**वर्ष 2013-14**

पानसेमल	2013-14	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना चालीपीठा 718	161.79
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना चालीपीठा 726	154.240
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना बायगौर 734	138.400
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मलगाव 743	202.740
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना सापखडकी 753	126.990
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना भडभडा 768	100.370
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मोहल्यापानी 773	80.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मांडवीपाडवा 786	70.00
पानसेमल	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना गोंदीकाचली 799	119.410
सेंधवा	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मोहरतमाल 571	85.460
धनोरा	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना राजनगाव 635	120.00
धवली	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना अडनदी 431	105.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना खपाडा 435	99.940
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना अजगरिया 451	89.250
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना खपाडा 459	63.710

1	2	3	4
धवली	2013-14	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना अजगरिया 466	71.110
वरला	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना ढोकल्यापानी 494	45.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना गुराडपानी 506	60.86
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना चिलारिया 515	70.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना डोगल्यापानी 530	87.800
पानसेमल	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास सापखडकी 751	209.970
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मनकुई 770	172.890
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास गोदीकाचली 800	118.740
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास तलाव 806	74.160
सेंधवा	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास उमरियापानी 575	74.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहाला 598	40.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास बघाड 699	30.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास बघाड 701	69.160
धनोरा	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कामोद 651	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास केलपानी 682	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खापरखेडा 684	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खापरखेडा 690	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास गुडा 615	71.810
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास राजनगाव 628	78.940
धवली	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास अडनदी 429	88.600
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास धवली 413	17.780
वरला	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहनपडावा 540	97.880
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहनपडावा 523	86.960
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास महानीम 486	75.050
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खुटवाडी 405	00.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कुडीया 551	00.000
सेंधवा	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण भवरगढ 585	30.00
पानसेमल	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण करणपुरा 730	35.00
वरला	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण महेन्द्रपानी 547	35.00
सेंधवा	--,,--	सागोन वृक्षारोपण भवरगढ 569	50

1	2	3	4
पानसेमल	2013-14	सागोन वृक्षारोपण करणपुरा 729	50
वरला	--,,--	सागोन वृक्षारोपण महेन्द्रपानी 187	50
<b>योग . .</b>			<b>3608.01</b>

## वर्ष 2014-15

वरला	2014-15	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V द. अम्बावतार 495	50
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V उ. दुगानी 505	60
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V बलवाडी 520	60
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V महेद्रपानी 544	150
पानसेमल	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V धावडी 727	210.4
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V बायगौर 735	159
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V मालगाव 743	111.3
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V पन्नली 753	63
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V घट्टया 763	119.5
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V मनकुई 773	106
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V खडीखम 786	270.2
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V मोयदा 801	90
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V धावडी 719	85.6
सेंधवा	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V भवरगढ़ 573	120
धनोरा	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V चाचरिया बी 635	33
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V रामगढ़ी बी 648	98
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V द. धावडा 455	70
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V खोखरी 467	75
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V अडनदी 431	88
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V अडनदी 437	120
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V उ. खट्टी 451	80
वरला	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V महानीम 486	50
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V द. किरमला 527	50
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V वरला 405	50
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V कुडिया 550	30
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V कोलकी 560	100
पानसेमल	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V मलफा 749	135

1	2	3	4
पानसेमल	2014-15	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V मनकुई 771	135
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V खडीखम 794	148.5
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V राजमली 812	75
सेन्धवा	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V गवाडी 576	17.6
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V मोहाला 596	151.8
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V वाक्या 605	102.7
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V गवाडी 712	139.9
धनोरा	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V रामकुल्ला 616	20
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V चाचरिया बी 632	19
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V चाचरिया बी 627	50
धवली	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V उ. खट्टी 480	64
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V द. खट्टी 449	40
<b>योग . .</b>			<b>1378.50</b>
<b>वर्ष 2014-15</b>			
सेंधवा	--,,--	पर्यावरण वानिकी कार्य हर्षनगर सेंधवा बीट सेंधवा	2.00
पानसेमल	--,,--	पर्यावरण वानिकी कार्य शिवटेकरी पानसेमल बीट पानसेमल	2.00
--,,--	--,,--	पर्यावरण वानिकी कार्य खडीखम 791	9.00
वरला	--,,--	पर्यावरण वानिकी कार्य मोहनपडावा 535	1.00
<b>योग . .</b>			<b>14.00</b>
<b>वर्ष 2014-15</b>			
धवली	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण दक्षिण धावडा 426	10
--,,--	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण भामपूरा 658	15
धनोरा	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण रामगढी बी 651	25
--,,--	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण रामकुल्ला 608	25
वरला	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण जामटी 497	25
पानसेमल	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण पश्चिम बायगोर 728	50
--,,--	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण सुलगाव 797	50
<b>योग . .</b>			<b>200</b>

1	2	3	4
<b>वर्ष 2014-15</b>			
सैंधवा	2014-15	सागोन वृक्षारोपण आचली 586	20
वरला	--,,--	सागोन वृक्षारोपण हिगवा 542	50
पानसेमल	--,,--	सागोन वृक्षारोपण धावडी 725	30
पानसेमल	--,,--	सागोन वृक्षारोपण खडीखम 791	50
<b>योग . .</b>			<b>150</b>
<b>वर्ष 2014-15</b>			
सैंधवा	2014-15	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XV मोहाला कक्ष 595	70
पानसेमल	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XV भडभडा कक्ष 763	50
धनोरा	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XV रामकुल्ला कक्ष 649	140
धनोरा	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XV मुवास्या कक्ष 663	40
धनोरा	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XIV खपाडा कक्ष 460	69
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XV अडनदी कक्ष 440	75
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XII अडनदी कक्ष 439	97
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XI अजगरिया कक्ष 469	99
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XII अजगरिया कक्ष 468	55
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XV अजगरिया कक्ष 471	165
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XIV उमरियापानी कक्ष 473	140
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत XV खपाडा कक्ष 455	70
<b>योग . .</b>			<b>1070</b>
<b>वर्ष 2014-15</b>			
सैंधवा	2014-15	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत XV गवाडी कक्ष 580	81
धनोरा	--,,--	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत V खपरखेडा कक्ष 691	45
धनोरा	--,,--	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत IV भामपुरा कक्ष 651	75
धनोरा	--,,--	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत IV केलपानी कक्ष 680	10
धनोरा	--,,--	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत IV केलपानी कक्ष 682	15
धनोरा	--,,--	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत V चाचरिया कक्ष 682	10
धनोरा	--,,--	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत V जुलवानिया कक्ष 654	15
धवली	--,,--	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत XV जुनापानी कक्ष 424	50
<b>योग . .</b>			<b>301</b>

1	2	3	4
<b>वर्ष 2015-16</b>			
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI धामन्या कक्ष 508	168.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI जुनापानी कक्ष 497	124.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI महेन्द्रयापानी कक्ष 555	200.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI दुगानी कक्ष 520	97.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI मोगरियापानी कक्ष 719	108.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI बायगौर कक्ष 727	108.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI देवगड कक्ष 737	101.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI टेमली कक्ष 744	195.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI पन्नाली कक्ष 754	222.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI भडभडा कक्ष 763	98.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI पिपलोद कक्ष 774	110.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI खडीखम कक्ष 787	100.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI झेंडियामाल कक्ष 801	111.00
सेंधवा	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI मोहाला कक्ष 573	71.00
धनोरा	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI मुवास्या कक्ष 648	87.00
धनोरा	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI रामकुल्ला कक्ष 636	133.00
<b>योग . .</b>			<b>2033.00</b>
<b>वर्ष 2015-16</b>			
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI उमरियापानी कक्ष 432	80.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI अडनदी कक्ष 439	114.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI खोखरी कक्ष 452	68.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI खपाडा कक्ष 458	76.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत VI अजगरिया कक्ष 462	81.00
<b>योग . .</b>			<b>419.00</b>
<b>वर्ष 2015-16</b>			
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VI नवलपुरा 713	122.00
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VI राईखेडा 577	105.00
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VI वाक्या 605	93.00
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VI आचली 597	90.00

1	2	3	4
पानसेमल	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI आचली 749	102.00
पानसेमल	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI मनकुई 775	266.00
पानसेमल	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सुलगाँव 795	114.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI राजमली 809	129.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सुरानी 618	98.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI कामोद 654	106.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सिरवेल 681	118.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI चाचरिया पाटी 628	103.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI रामकुल्ला 691	101.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI शिवन्या 685	129.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI कोलकी 558	120.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI किरमला 522	149.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI वरला 408	106.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI वरला 409	78.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सोलवन 567	130.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI दुगानी. 488	120.00
धवली	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI अम्बापानी 478	66.00
धवली	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI धवली 444	69.00
<b>योग . .</b>			<b>2514.00</b>
<b>वर्ष 2015-16</b>			
सेंधवा	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य वन मण्डल कैम्पस सेंधवा	1.50
सेंधवा	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य सालीकला कक्ष 715	10.00
पानसेमल	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य शिवटेकरी पानसेमल	5.85
वरला	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य मोहनपडावा 539	3.50
वरला	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य हिगवा 538	2.50
<b>योग . .</b>			<b>23.35</b>
<b>वर्ष 2015-16</b>			
धनोरा	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मुवास्या 658	25.00
धनोरा	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मुवास्या 652	10.00
पानसेमल	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मलगांव 728	50.00
पानसेमल	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मनकुई 775	30.00
<b>योग . .</b>			<b>115.00</b>



1	2	3	4
<b>वर्ष 2015-16</b>			
धनोरा	2015-16	सागौन वृक्षारोपण सिरवेल 694	25.00
धनोरा	2015-16	सागौन वृक्षारोपण मुवास्या 652	25.00
पानसेमल	2015-16	सागौन वृक्षारोपण मलगांव 741	50.00
पानसेमल	2015-16	सागौन वृक्षारोपण मनकुई 777	50.00
वरला	2015-16	सागौन वृक्षारोपण बाखली 403	50.00
<b>योग . .</b>			<b>200.00</b>
<b>वर्ष 2016-17</b>			
वरला	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII धामन्या 509	96.45
वरला	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII जूनापानी 498	139.45
वरला	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII दूगानी 521	172.21
वरला	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII महेन्द्रयापानी 534	222.02
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII मोगरियापानी 720	167.73
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII बायगौर 728	297.48
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII देवगढ 736	95.39
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII टेमली 744	210.84
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII पननाली 755	105.15
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII भडभडा 763	139.13
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII पिपलोद 774	117.79
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII खडीखम 788	181.37
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII झेण्डियामाल 802	105.89
सेंधवा	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII मोहाला 599	116.580
धनोरा	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII मुवास्या 652	96.13
धनोरा	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII रामकुल्ला 636	89.04
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII उमरियापानी 427	197.05
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII खोखरी 452	105.43
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII खपाडा 457	138.29
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII अजगरिया 464	127.25
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII अडनदी 436	180.80
<b>योग . .</b>			<b>3101.47</b>
<b>वर्ष 2016-17</b>			
सेंधवा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII नवलपुरा 713	79.43
सेंधवा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII रोईखेडा 577	127.17
सेंधवा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वाक्या 606	81.6
सेंधवा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII आचली 597	119.66

1	2	3	4
पानसेमल	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII मलगांव 760	170.17
पानसेमल	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII मनकुई 775	301.15
पानसेमल	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII सुलगांव 795	118.65
पानसेमल	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII राजमली 828	180.72
धनोरा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII सुरानी 614	106.200
धनोरा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII कामोद 666	160.72
धनोरा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII सिरवेल 681	113.04
धनोरा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII चाचरिया 620	208.70
धनोरा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII धनोरा 692	181.29
धनोरा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII शिवन्या 678	119.50
वरला	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII कोलकी 540	154.32
वरला	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII किरमला 512	268.51
वरला	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII वरला 406	68.75
वरला	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII वरला 407	35.95
वरला	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII वरला 554	123.42
वरला	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII दुगानी 488	124.74
<b>योग ..</b>			<b>2843.69</b>
<b>वर्ष 2016-17</b>			
धवली	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII धवली 470	195.23
धवली	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत VII अम्बापानी 479	132.05
<b>योग ..</b>			<b>327.28</b>
<b>वर्ष 2016-17</b>			
वरला	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण खुटवाडी 404	35
वरला	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण महेन्द्रयापानी 546, 551	15
धनोरा	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण कडाउईपानी 614	50
<b>योग ..</b>			<b>100.00</b>
<b>वर्ष 2016-17</b>			
पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण वासन्यापानी 776	50
पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण मोंयदा 802	20
पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण तालाब 805	30
धवली	2016-17	सागौन वृक्षारोपण खपाडा 458	25
धवली	2016-17	सागौन वृक्षारोपण खोखरी 459	25
<b>योग ..</b>			<b>150.00</b>

लखनलाल उइके,  
वनमण्डलाधिकारी.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016-अग्रहायण 18, शके 1938

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 3 अगस्त, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील आरोन, चांचौड़ा (गुना), अजयगढ़ (पन्ना), मझगावां, अमरपाटन, रामनगर (सतना), हुजूर (रीवा), चुरहट (सीधी), राणापुर (झाबुआ), सेगांव, कसरावद (खरगौन), पानसेमल (बड़वानी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील अशोकनगर (अशोकनगर), निवाड़ी, जतारा (टीकमगढ़), पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), बीना, रहली, देवरी, मालथोन (सागर), उचेहरा (सतना), त्योंधर, सिरमोर, गुढ (रीवा), सोहागपुर, ब्यौहारी (शहडोल), मंदसौर (मंदसौर), जावरा, आलोट, बाजना (रतलाम), झाबुआ (झाबुआ), कक्षी, डही (धार), बड़वाह, झिरन्या (खरगौन), बड़वानी, निवाली (बड़वानी), श्यामपुर (सीहोर), बिछिया (मंडला), शाहपुरा (डिण्डोरी), कुरई (सिवनी), परसवाड़ा, बिरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह (मुरैना), अटेर (भिण्ड), गुना, बमोरी, कुंभराज (गुना), पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), बिजावर (छतरपुर), रघुराजनगर, रामपुरबघेलान, नागौद, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), मऊगंज, हनुमना (रीवा), रामपुरनैकिन (सीधी), पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), शुजालपुर (शाजापुर), मेघनगर (झाबुआ), सौण्डवा (अलीराजपुर), मनावर (धार), महेश्वर, भगवानपुरा, भीकनगांव (खरगौन), सेंधवा (बड़वानी), मंझोली (जबलपुर), करेली, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मंडला), बजाग (डिण्डोरी), पादुर्ना, हरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, मिहोना-रोन (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुगांवली, ईसागढ़ चन्देरी (अशोकनगर), राधोगढ़ (गुना), वल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बड़ामलहरा, बकस्वाहा (छतरपुर), पवई, शाहनगर (पन्ना), खुरई, बंडा, सागर, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ (सागर), रामपुरकर्चुलियान (रीवा), जैसिंहनगर, गोहपारू, जैतपुर, बुढार (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिहावल, मंझोली, कुसमी (सीधी), भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्धड़का, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), सैलाना (रतलाम), खाचरौद, तराना, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, शाजापुर, कालापीपल,

गुलाना (शाजापुर), थांदला, पेटलावद (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, उदयगढ़, च. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, धरमपुरी, गंधवानी (धार), खरगौन, गोगांवा (खरगौन), ठीकरी, पाटी (बड़वानी), खकनार, नेपानगर, बुरहानपुर (बुरहानपुर), सीहोर, आष्टा, जावर, इच्छावर, नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुंडम (जबलपुर), गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, गोटेगांव (नरसिंहपुर), नैनपुर (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, चांद, उमरेठ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरघाट, घन्सौर, घनौरा, छपारा (छिन्दवाड़ा), बालाघाट, लांजी, बेहर, वारासिवनी, कटंगी, किरनापुर, लालबर्बा, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील शिवपुरी (शिवपुरी), सुबासरा टप्पा (मंदसौर), महिदपुर, घटिया (उज्जैन), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), पचमढ़ी (होशंगाबाद) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला व डिण्डोरी में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला डिण्डोरी में फसल कोंदो-कुटकी, तुअर, रामतिल, उड़द व श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर व मंडला में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 3 अगस्त, 2016

जिला/तहसीलें	1.ससाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	40.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	190.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	104.2				
4. जौरा	63.0				
5. सबलगढ़	68.0				
6. कैलारस	70.0				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	98		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	79.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	108.0				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	37.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	88.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	98.0				
4. मेहगांव	53.8				
5. लहार	73.0				
6. मिहोना } 7. रौन }	111.1				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. ग्वालियर	164.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	60.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	63.0				
4. घाटीगांव	60.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सेवढ़ा	..		4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	259.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	62.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	88.0				
4. नरवर	240.8				
5. करैरा	207.6				
6. कोलारस	176.0				
7. पोहरी	158.0				
8. बदरवास	189.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	89.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	75.0		(2) ..		
3. अशोकनगर	32.0				
4. चन्देरी	84.0				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	41.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	126.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	42.0				
4. आरोन	17.0				
5. चाचौड़ा	17.0				
6. कुम्भराज	46.0				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	20.0		4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उर्दा, मूंगफली, तिल, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	52.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	23.0				
4. टीकमगढ़	50.0				
5. बल्देवगढ़	59.0				
6. पलेरा	72.0				
7. ओरछा	53.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	95.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	91.0		(2) ..		
3. नौगांव	83.4				
4. छतरपुर	84.6				
5. राजनगर	95.0				
6. बिजावर	45.4				
7. बड़ामलहरा	68.4				
8. बकस्वाहा	100.9				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	17.4		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	28.3		(2) ..		
3. गुन्नौर	33.7				
4. पवई	76.0				
5. शाहनगर	210.6				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	25.8		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	129.3		(2) ..		
3. बण्डा	94.0				
4. सागर	56.1				
5. रेहली	30.0				
6. देवरी	26.0				
7. गढ़ाकोटा	67.8				
8. राहतगढ़	69.0				
9. केसली	86.2				
10. मालथोन	31.0				
11. शाहगढ़	72.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हटा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. बटियागढ़	..		(2) ..		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	39.1		4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, अरहर सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगावां	10.0		(2) ..		
3. रामपुर-बधेलान	40.0				
4. नागौद	48.6				
5. उचेहरा	28.0				
6. अमरपाटन	10.0				
7. रामनगर	16.0				
8. मैहर	52.0				
9. बिरसिंहपुर	45.0				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंधर	19.0		4. (1) उड़द, मूंग अधिक. धान, सोयाबीन कम. तुअर, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	34.4		(2) ..		
3. मऊगंज	47.0				
4. हनुमना	44.5				
5. हुजूर	12.5				
6. गुढ़	30.2				
7. रायपुरकञ्जुलियान	73.2				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	26.0		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, को. कुटकी, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	28.0		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	98.0				
4. गोहपारु	187.0				
5. जैतपुर	164.0				
6. बुढार	70.8				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	82.8		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, तिल, कोदों-कुटकी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	104.7		(2) ..		
3. कोतमा	83.2				
4. पुष्पराजगढ़	190.1				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	98.5		4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	112.0		(2) ..		
3. मानपुर	117.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	60.0				
2. सिंहावल	54.2				
3. मझौली	66.6				
4. कुसमी	67.0				
5. चुरहट	11.4				
6. रामपुरनैकिन	41.2				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, राहर, उड़द, को. कुटकी, कम. मक्का, ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	255.4				
2. भानपुरा	83.0				
3. मल्हारगढ़	143.0				
4. गरोठ	185.4				
5. मन्दासौर	32.0				
6. श्यामगढ़	238.2				
7. सीतामऊ	132.6				
8. धुन्धडका	144.0				
9. संजीत	90.0				
10. कयामपुर	102.0				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, मक्का, तिल, तुअर, मूंगफली, मूंग अधिक. धान कम. ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	33.7				
2. आलोट	19.4				
3. सैलाना	61.2				
4. बाजना	29.1				
5. पिपलौदा	40.1				
6. रतलाम	43.9				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	127.0				
2. महिदपुर	317.0				
3. तराना	197.0				
4. घटिया	334.0				
5. उज्जैन	121.0				
6. बड़नगर	68.0				
7. नागदा	183.0				
<b>*जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	120.0				
2. शाजापुर	85.0				
3. शुजालपुर	52.0				
4. कालापीपल	126.0				
5. गुलाना	74.0				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, अधिक. सोयाबीन, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	148.0		4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, कपास, मूंगफली, तुअर अधिक. धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	50.0		(2) ..		
3. पेटलावद	80.0				
4. झाबुआ	23.5				
5. राणापुर	5.0				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	97.4		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	150.0		(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	248.0				
4. उदयगढ़	79.2				
5. सोण्डवा	36.0				
6. च. शेखर आ. न.	192.6				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	75.0		4. (1) गन्ना-अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	102.0		(2) ..		
3. धार	76.1				
4. कुक्षी	28.5				
5. मनावर	53.0				
6. धरमपुरी	58.0				
7. गंधवानी	84.0				
8. डही	27.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	34.0		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूंगफली, तुअर, गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	46.6		(2) ..		
3. सेगांव	10.0				
4. खरगौन	58.1				
5. गोगावां	64.0				
6. कसरावद	15.0				
7. भगवानपुरा	51.0				
8. भीकनगांव	43.0				
9. झिरन्या	32.4				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर				
1. बड़वानी	19.6	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ठीकरी	81		4. (1) गन्ना अधिक. गोहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. ..
3. राजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. सेंधवा	46				
5. पानसेमल	8				
6. पाटी	77				
7. निवाली	25				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) सोयाबीन, कपास, धान, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		ज्वार, उड़द, मूंग.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..		(2) ..		
<b>जिला बुहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	107.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	58.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	125.0				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरौंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		धान, ज्वार, मूंग समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	116.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	27.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	144.0				
4. जावर	101.6				
5. इछावर	100.3				
6. नसरुल्लागंज	237.0				
7. रेहटी	159.9				
8. बुधनी	121.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	124.4				
2. गैरतगंज	76.8				
3. बेगमगंज	73.0				
4. गौहरगंज	153.0				
5. बरेली	70.4				
6. सिलवानी	56.5				
7. बाड़ी	106.5				
8. उदयपुरा	185.0				
<b>*जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	93.4				
2. होशंगाबाद	206.6				
3. बावई	56.0				
4. इटारसी	97.8				
5. सोहागपुर	98.0				
6. पिपरिया	167.4				
7. वनखेड़ी	95.6				
8. पचमढी	303.4				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	66.4				
2. पाटन	86.5				
3. जबलपुर	100.8				
4. मझौली	49.6				
5. कुण्डम	80.7				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बडवारा	..				
7. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	124.0				
2. करेली	40.0				
3. नरसिंहपुर	70.0				
4. गोटेगांव	56.0				
5. तेन्दूखेड़ा	50.0				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	42.2				
2. बिछिया	34.5				
3. नैनपुर	133.8				
4. मण्डला	40.6				
5. घुघरी	36.9				
6. नारायणगंज	42.7				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं कोदो-कुटकी, तुअर, रामतिल, उड़द की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदो-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	112.1				
2. बजाग	37.7				
3. शाहपुरा	27.2				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	81.4				
2. जुन्नारदेव	227.0				
3. परासिया	146.6				
4. जामई (तामिया)	145.0				
5. सोंसर	54.9				
6. पांडुर्णा	48.2				
7. अमरवाड़ा	140.0				
8. चौरई	65.5				
9. बिछुआ	121.6				
10. चांद	56.8				
11. हरई	43.0				
12. उमरेठ	64.3				
12. मोहखेड़ा	151.0				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	53.80				
2. केवलारी	82.20				
3. लखनादौन	127.50				
4. बरघाट	143.10				
5. कुरई	29.0				
6. घंसौर	87.0				
7. घनोरा	90.10				
8. छपारा	235.50				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	108.0				
2. लाँजी	97.4				
3. बैहर	86.0				
4. वारासिवनी	87.1				
5. कटंगी	74.5				
6. किरनापुर	152				
7. लालबर्वा	103.0				
8. खैरलाँजी	56				
9. परसवाड़ा	24.4				
10. बिरसा	29.7				

टीप.— \*जिला दमोह, आगर, बैतूल, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,  
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(854)